

Conversation and Mentoring Session Expressions: When You Need Help

- माफ़ कीजिए। मैं नहीं समझा। या, मुझे (यह) समझ में नहीं आया।
- Pardon me. I did not understand.

या, (or)

- मुझे (यह) समझ में नहीं आया।
- I did not get (this).

- माफ़ कीजिए। क्या आप दोबारा बोल सकते हैं?
- Pardon me. Could you repeat?

- यह काफी मुश्किल/आसान है।
- This is quite difficult/easy.

- इसका क्या मतलब है।
- What does this mean?